

UNIPARTS INDIA LTD.

November 16, 2025

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 543689	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 Symbol: UNIPARTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub: Newspaper Advertisement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed newspapers advertisement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025, published on November 16, 2025, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to take the above on record and disseminate the same on your website.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Uniparts India Limited

Jatin Mahajan
Head Legal, Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

MAXPLUS LOGISTICS LIMITED								
CIN: L65999DL1985PLC022321								
Regd. Office: 1 Community Centre East Of Kailash New Delhi 110065								
Website: www.maxpluslogisticslimited.com, Mail ID: mcsitch.excom@gmail.com								
Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025								
Sl No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	Half Year ended	(Rs. In Lakhs)	
		30.09.2025 (Un-Audited)	30.06.2025 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	30.09.2025 (Un-Audited)	30.09.2024 (Un-Audited)	30.09.2025 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total income from operations				3.50		3.50	6.50
2.	Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.67)	(3.33)		0.40	(5.00)	(4.89)	(15.20)
3.	Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.67)	(3.33)	0.40	(5.00)	(4.89)	(15.20)	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.67)	(3.33)	0.40	(5.00)	(4.89)	(15.20)	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1.67)	(3.33)	0.40	(5.00)	(4.89)	(13.74)	
6.	Equity Share Capital	383.45	383.45	383.45	383.45	383.45	383.45	
7.	Other Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Basic & Diluted:	(0.00)	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.01)	(0.04)	
Notes:								
1. The above audited financial statements for the quarter September, 2025 and year ended March 31, 2025 have been taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 14.11.2025.								
2. The above audited results are in accordance with the standard accounting practices followed by the company in preparation of its statutory accounts.								
3. Previous year figures have been regroup/rearranged where ever necessary.								
4. There is no segment results, as the company deals in only one segment								
5. Paid up equity share capital does not include the amount of forfeited shares.								
6. EPS/ Cash EPS is worked out on total number of paid up equity shares.								
7. No. of Investor Complaint received: NIL Disposed Off: NIL								
By Order of the Board For Maxplus Logistics Ltd Sd/- Sanjeev Chandra Director DIN-00095561								
Place : New Delhi Date : 14.11.2025								

AUTO PINS (INDIA) LIMITED					
Regd. Off: Premise No. 40, 1st Floor, India Mall, New Friends Colony, New Delhi, South Delhi-110025					
CIN: L34300DL1975PLC007994 Landline: 91-129-4155691/92					
Email Id: autopinsdelhi@gmail.com; Website: https://www.autopinsindia.com					
Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Second Quarter & Six Months ended 30th September, 2025					
(Rs. In Lacs except per share data)					
Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Half Year ended	Half Year ended
	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)
Total Income from Operations	736.85	1057.71			1725.77
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.93	8.94			8.97
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.93	8.94			8.97
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.94	6.64			5.29
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2.94	6.64			5.29
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	570.71	570.71			570.71
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	292.15	267.17			292.15
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
1. Basic :	0.05	0.12			0.09
2. Diluted :	0.05	0.12			0.09
Notes:					
1. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone Financial Results for the Second Quarter and Six Months ended 30th September, 2025 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Second Quarter and Six Months ended 30th September, 2025 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (https://www.autopinsindia.com).					
2. The above Unaudited Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 14th November, 2025.					
For AUTO PINS (INDIA) LIMITED Sd/- RAJBIR SINGH (MANAGING DIRECTOR) DIN: 00176574					
Place: Delhi Date: 15.11.2025					

UNIPARTS INDIA LIMITED						
Regd Office : Gripwel House, Block-5, Sector C 6 & 7, Vasant Kunj, New Delhi -110070						
Corporate Office: 1st Floor, B 208, A1 & A2, Phase-II, Noida-201305, U.P., India						
CIN : L74899DL1994PLC061753, Ph. No. : +91 120 458 1400						
Email : compliance.officer@unipartsgroup.com; Website : www.unipartsgroup.com						
Extract of Standalone and Consolidated Unaudited financial results for the quarter and half year ended 30th September 2025						
(INR in Millions)						
STANDALONE						
Sr. No.	Particular	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	31-03-2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	2,138.89	1,674.81	1,806.51	3,813.70	6,450.30
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	527.19	196.78	416.33	723.97	947.09
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	527.19	196.78	416.33	723.97	947.09
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	473.44	146.26	385.30	619.70	829.25
5	Total Comprehensive income for the period	444.40	130.59	350.24	574.99	810.51
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10 per share)	451.34	451.34	451.34	451.34	451.34
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date					5,288.36
8	EARNINGS PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF Rs. 10 EACH					
	Basic Earning Per Share (EPS) (In Rs.) (*Not annualised)	10.49*	3.24*	8.54*	13.73*	11.44*
	Diluted Earning Per Share (EPS) (In Rs.) (*Not annualised)	10.49*	3.24*	8.54*	13.73*	11.44*
CONSOLIDATED						
(INR in Millions)						
Sr. No.	Particular	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	31-03-2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	2,827.28	2,791.50	2,467.44	5,618.78	9,849.14
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	505.06	446.56	275.56	951.62	1,142.74
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	505.06	446.56	275.56	951.62	1,142.74
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	393.85	344.64	211.46	738.49	880.04
5	Total Comprehensive income for the period	369.68	309.73	151.81	679.41	828.39
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10 per share)	451.34	451.34	451.34	451.34	451.34
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date					8,420.81
8	Earnings Per Equity Share Of Face Value Of Rs. 10 Each					
	Basic Earning Per Share (EPS) (In Rs.) (*Not annualised)	8.72*	7.64*	4.68*	16.36*	19.50
	Diluted Earning Per Share (EPS) (In Rs.) (*Not annualised)	8.72*	7.64*	4.68*	16.36*	19.50
Notes:						
1 The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financials Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The detailed financial result and this extract were reviewed and recommended by the Audit committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on November 14, 2025. The full format of Statement of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the company's website (https://www.unipartsgroup.com/home/quarterly_financial_results) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com). The same can also be accessed by scanning the QR code provided below.						
2 The Company operates primarily in the business of manufacturing of Linkage Parts and Components for Off-Highway Vehicles. Chief Operating Decision Maker (CODM), evaluates the company's performance, based on the analysis of the various performance indicators of the company, the Chief Operating Decision Maker (CODM) has decided that there is no reportable segment for the Company.						
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD Tanushree Bagrodia (Whole-time Director) [DIN: 06965596]						
Place: Noida, U.P. Dated : 14th November 2025						

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED							
Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052							
Ph: 011-42952500							
E-Mail: info@sfcindia.com, Website: www.sfcindia.com							
CIN: L65921DL1989PLC035261							
Extract from Standalone unaudited Financial Results for the Quarter/ Half year ended 30 th September, 2025							
(₹ in Lacs)							
PARTICULARS	Quarter ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the Quarter ended	Year to date figures for current Period ended	Year to date figures for Period ended	Previous Year ended	
	30.09.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	
Total income from operations (net)	8.50	8.40	7.30	16.90	14.56	29.25	
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.95	1.12	0.02	2.08	-1.04	-1.36	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.95	1.12	0.02	2.08	-1.04	-1.36	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.59	0.96	0.06	1.55	-0.96	-2.23	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	0.59	0.96	0.06	1.55	-0.96	-2.23	
Equity Share Capital	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	-	-	-	79.95	
Earnings per share (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.02	0.03	0.00	0.05	-0.03	-0.08	
Earnings per share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.02	0.03	0.00	0.05	-0.03	-0.08	
Notes:							
1. The above financial results have reviewed and recommended by the audit committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14.11.2025.							
2. The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 and other recognized accounting practices and the policies to the extent applicable. (LODR) Regulation, 2015 and other recognized accounting practices and the policies to the extent applicable.							
3. The Company has not received any complaint from investors during the quarter ended on 30.09.2025.							
4. The Business activity of the Company falls with in a single primary segment and there are no reportable segments.							
5. Figures for the corresponding period have been regrouped/ recasted/rearranged wherever necessary to make them comparable.							
6. The unaudited financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2025 are available on the Company's website (www.sfcindia.com) and on the website of MSEI (www.msei.in).							
For and on behalf of the Board Sd/- Vinod Gupta (Whole Time Director) DIN: 00381782							
Place : Delhi Date : 14.11.2025							


Arihant Foundations & Housing Limited													
Registered office: No.3, Ganapathy Colony, 3rd Street, Off.Cenotaph Road, Teynampet, Chennai - 18 Website:- www.arihantspaces.com E-mail : investors@arihants.co.in CIN: L70101TN1992PLC022299													
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2025													
(Rs. in lakhs)													
S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30/09/2025	30/06/2025	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2024	31/03/2025	30/09/2025	30/06/2025	30/09/2024	30/09/2025	30/09/2024	31/03/2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	6,022	5,392	2,447	11,413	4,318	12,226	8,780	8,258	4,829	17,038	8,699	20,644
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	558	650	679	1,208	1,130	3,469	2,488	2,131	1,465	4,321	2,826	5,825
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	558	650	679	1,208	1,130	3,469	2,488	2,131	1,465	4,321	2,826	5,825
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	404	469	490	873	816	2,545	2,005	1,635	1,056	3,177	2,007	4,270
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	404	469	490	873	816	2,543	2,005	1,635	1,056	3,177	2,007	4,269
6	Paid-up Equity Share Capital	997	997	860	997	860	911	997	997	860	997	860	911
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)						25,153						29,022
8	Earnings Per Share (in Rs.)												
	1. Basic (Rs.).	4.06	5.15	5.70	8.76	9.49	27.93	20.12	16.40	12.28	31.88	23.34	46.88
	2. Diluted (Rs.).	4.06	5.15	5.70	8.76	9.49	27.93	20.12	16.40	12.28	31.88	23.34	46.88

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and consolidated financial results for the quarter ended and half year ended 30.09.2025 filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for Quarter ended and half year ended 30.09.2025 is available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also on the Company's website at www. arihantspaces.com.

2. The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 14.11.2025.

3. The Company has only one Segment , Real Estate.



BY ORDER OF THE BOARD
FOR ARIHANT FOUNDATIONS & HOUSING LIMITED
SD/-
KAMAL LUNAWATH
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00087324

Place : Chennai
Date : 14-11-2025

एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड

24, अशोका चैम्बर्स, 5-बी राजिंद्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली – 110060

सीआईएन: L65910DL1992PLC049566

ईमेल आईडी: smccorp011@gmail.com, फोन: 011–45012880, वेबसाइट: www.smccredits.com

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के विवरण

निदेशक मंडल ने 14 नवंबर, 2025 को आयोजित बैठक में 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और

छमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को स्वीकृति दी है।

ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com (URL: https://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=5bb90dfd-33f9-452c-892d-f7b44cb3336c) और कंपनी की वेबसाइट www.smccredits.com पर उपलब्ध हैं।

(URL:-

https://www.smccredits.com/productpicture/802SMC%20%20Qtr%20%20UFR%20with%20LR.pdf)

इसे यहां पर प्रदान किए गए त्वरित प्रतिक्रिया कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है:

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 15 नवंबर, 2025

नोट – उपरोक्त सूचना सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के सहपठित विनियम 33 के अनुरूप है।



बोर्ड के आदेश द्वारा कृते एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड

हस्ता/—

राजेश गोयनका

पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ

डीआईएन: 00298227

नोट – उपरोक्त सूचना सेवा (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के सहपठित विनियम 33 के अनुरूप है।

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

CIN : L51909DL1984PLC019485

Regd Off: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006

Tel. No.: 01123517516-19, Email : cs@neccgroupp.com, Website : www.neccgroupp.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025



Moving You Ahead

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		September 30, 2025 (Un-Audited)	June 30, 2025 (Un-Audited)	September 30, 2024 (Un-Audited)	September 30, 2024 (Un-Audited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Income from Operations	7,074.60	6,909.98	8,194.16	13,984.58	15,957.58
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	265.05	240.29	402.21	505.34	928.48
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	265.05	240.29	402.21	505.34	928.48
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	181.80	178.03	287.30	359.83	654.71
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	192.61	181.64	288.67	374.25	641.97
6	Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- per share)	10,000.00	10,000.00	9,995.49	10,000.00	9,995.49
7	Reserve excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous year	-	-	-	12,280.38	11,524.93
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)					
a) Basic		0.19	0.18	0.29	0.37	0.66
b) Diluted		0.19	0.18	0.29	0.37	0.66

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The figures are available on the website of the Company at www.neccgroupp.com and website of Stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- The above un-audited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on November 14, 2025
- The figures of previous quarter/financial year were regrouped/rearranged where ever necessary.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

Sd/-

Sunil Kumar Jain

Chairman & Managing Director

DIN - 00010695

Place: Delhi

Date : November 14, 2025



शाखा: हरनई, ग्राम व पोस्ट चॉंदपुर,

जिला शाहजहाँपुर, उ.प्र. 242401, भारत

फ़ोन: harnah@bankofbaroda.com

कब्जा नोटिस (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त कियों के अनुपालन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ने कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर रकम का भुगतान करने हेतु कहते हुए यहां निम्नवर्णित तथा प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को गांठ सूचना जारी की थी। कर्जदार रकम का भुगतान करने में असफल रहे एतद्वारा आम नागरिकों तथा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथियों को कथित नियम के नियम 6 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उन्हें / उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यह। निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। खासतौर से कर्जदारों और आम नागरिकों को रापण्टिके के साथ कोई भी लेन-देन करने के प्रति एतद्वारा सावधान किया जाता है। सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन, रकम और उनका व्याज बैंक ऑफ बड़ौदा, के प्रभार पर निर्भर करेगा। जिन सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है, उनके विवरण निम्नानुसार है -

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	गांठ नोटिस की तिथि और नोटिस के अनुसार राशि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण	कब्जे लेने की तिथि
1. मेसर्स आर.एस. फिलिंग स्टेशन (प्रो. स्वीन्ड सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह (फूजी) ग्राम: हरनई, खुदर, शाहजहाँपुर सूची 242123.	18.06.2025 रुपये 23,07,212.34 (रुपये तेईस लाख साठ हजार दो सौ बारह और चौदिस पैसा मात्र) दिनांक 18.08.2025 तक + व्याज व अन्य व्यय प्रभावी।	संपत्ति जिनके नाम पर पंजीकृत है उनका नाम: श्री रविंद्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, निवासी मोहल्ला नववीन (वर्तमान मोहल्ला इन्द्रा नगर), शाहजहाँपुर विक्रय विलेख नं. 8038 दिनांक 28-12-2001, गांव नं. 1638 (विक्रय विलेख के अनुसार) संपत्ति की स्थिति: मोहल्ला नववीन, ग्राम सहर खसुतारी एन. जेड.ए., अंडर चुंगी (वर्तमान मोहल्ला इन्द्रा नगर), परगना एवं तहसील सदर, शाहजहाँपुर। संपत्ति की चौदहरी: संपत्ति के विक्रय विलेख के अनुसार उत्तर: रस्ता मुसरका कच्चा, दक्षिण: श्री साजिज खान आदि का मकान, पूर्व: आराजी एवं श्री राजेंद्र का मकान, पश्चिम: विखेता की आराजी। क्षेत्रफल: 300.16 वर्ग मीटर।	11.11.2025

दिनांक: 16.11.2025

स्थान: हरनई

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

 UFSL <i>We Support Your Goals</i>	USHA FINANCIAL SERVICES LIMITED	
	CIN: L74899DL1995PLC068604	
	Regd. Office: Plot No. 73, First Floor, Patparganj, Industrial Area, East Delhi, Delhi, India, 110092	
	Corporate Office: 3rd Floor Plot No 40, Near Wave Cinema, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 201012	
	Website: www.ushafinancial.com Email: compliance@ushafinancial.com Tel: +91204320775	
	EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025	

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025 (unaudited)	30.06.2025 (unaudited)	30.09.2025 (unaudited)	30.09.2024 (unaudited)	31.03.2025 (audited)
1	Total Income from Operations	1,693.61	1,737.89	1,357.89	3,431.50	2,745.47
2	Profit before exceptional items and tax	532.15	713.90	557.03	1,246.05	1,005.24
3	Profit before tax	532.15	713.90	557.03	1,246.05	1,005.24
4	Profit after tax	397.55	534.52	419.44	932.07	781.46
5	Total Comprehensive Income for the year/period	397.72	534.69	419.61	932.41	781.80
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	4,347.53	2,173.76	1,587.76	4,347.53	1,587.76
7	Other equity	17,303.15	19,102.54	9,576.75	17,303.15	9,576.75
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)					
Basic (in Rs.) (not annualised)		0.91	1.23	1.12	2.14	2.08
Diluted (in Rs.) (not annualised)		0.91	1.23	1.12	2.14	2.08

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website www.ushafinancial.com that can also be accessed through the QR Code given below.
- The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principal in Ind AS 34 - Interim Financial Reporting, prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
- The Company is a Non Banking Financial Company (NBFC) engaged primarily in the business of lending to Financial Institutions, Corporates and individuals etc. on PAN India basis. Accordingly, there are no separate reportable segments in accordance with the requirement of Ind AS 108 - Operating Segments".
- The Company has adopted Indian Accounting Standard (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) with effect from 01.04.2025. Accordingly, the financial result for the quarter and half year ended 30.09.2025 are in compliance with Ind AS and the result for the comparative quarter ended 30.06.2025 & 30.09.2024 and the previous year ended 31.03.2025 are also compliant with Ind AS.
- Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.



For USHA FINANCIAL SERVICES LIMITED

Sd/-

Mr. Rajesh Gupta

Managing Director

DIN: 01941985

Place : Delhi

Date : 16/11/2025

पृष्ठ नं. 14 | विनियमन-39(2) | पृष्ठ 1

वसुली अधिकांश 1/11 का कार्यालय

ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)

4थी मंजूर, चौदह गारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

गांठ सूचना

ऋण वसुली और दिवालियान अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

आसली/204/2024 07.10.2025

बैंक ऑफ बड़ौदा वनाम फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.

(सीडी 1) फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.,

68/3, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली 110015 वेस्ट, दिल्ली-110048

और साम की. सी-197, सेक्टर फ्लोर ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली 110048

(सीडी 2) श्री सुमित नंद, निदेशक मेसर्स फॉरेनहाइट ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.

68/3, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

(सीडी 3) मेसर्स रैलमैन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

डी-11, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली 110020

(सीडी 5) श्री सुमित नंद

एफ-1/9, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-क नई दिल्ली 110020

(सीडी 6) श्री कोनाक नंद

एफ-1/9, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-क नई दिल्ली 110020

आपको यह सूचित किया जाता है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा

दिए गए/24/2022 में पारित आदेशों के अनुसार में जारी वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार, आपके विरुद्ध (संवर्ग रूप से)

और अलग-अलग/पूर्ण रूप से/सीमित रूप से) रु. 4,33,16,745/- (रुपये चार करोड़ तीस लाख सौह्र हजार सात सौ पैतालिस मात्र) की राशि, साथ ही 12/08/2016 से वसुली होने तक 12.55% साधारण वार्षिक व्याज की दर से वादकर्ता और भीषण का व्याज तथा रु. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) की लागत देय हो गई है।

2. आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वसुली बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले अपने परिसंपत्तियों का विवरण एक साथ पत्र पर भोषित करें।

4. आपको आपको की कार्यवाही के लिए 01/12/2025 को पूर्ण. 10-30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।


5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:- (क)

प्रमाणपत्र/न्यायन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय व्याज।

(ख) इस नोटिस और वारंटों तथा अन्य प्रक्रियाओं की तामीन और देय राशि की वसुली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागतें, शुल्क और खर्च।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत तिथि 07/10/2025 को जारी किया गया:

वसुली अधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)



शाखा: गोविंदगंज, हौकी ग्राउण्ड के पास, टाउनहॉल, जिला शाहजहाँपुर, उ.प्र. 242001 (उ.प्र.) इंडिया, मोबाईल: 8477009771, ईमेल: shacon@bankofbaroda.com



सिक्योरिटी इंटररेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और/ या नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना

विषय: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 (8) के अंतर्गत विमोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 (2) और/ या नियम 8 (6) के अनुपालन में निम्नलिखित उधारकर्ताओं और जमानतदारों (विवरण नीचे दिया गया है) को नोटिस जारी किया और पंजीकृत डाक द्वारा भेजा, लेकिन पते पर दरवाजा बंद मिला।)

जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षित ऋणदाता बैंक होने के नाते SARFAESI अधिनियम 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (जिसे आगे 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित, मांग नोटिस जारी किया है जिसमें आपसे ऋणी/बंधकर्ता/गारंटर होने के नाते उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है।

और चूंकि ऋणी/ गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 4 और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षित परिसंपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विवरण नीचे अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है।

सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के बाद भी, आपने उपरोक्त सांकेतिक कब्जा नोटिस में उल्लिखित बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है। आपका ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर लागू व्याज, लागत, शुल्क और व्यय के साथ कब्जा नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करें और नीचे उल्लिखित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति को विमोचित। यदि आप इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने और सुरक्षित संपत्ति को विमोचित में विफल रहते हैं, तो बैंक ई-नीलामी विक्री सूचना प्रकाशित करके सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य होगा। ई-नीलामी की तिथि, समय और संपत्ति का आरक्षित मूल्य आपको अलग से सूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	शाखा/ कर्जदार / जमानतकर्ता का नाम	मांग सूचना / कब्जा सूचना विमोचन सूचना की तिथि	कब्जा सूचना के प्रकाशन की तिथि (केवल अलग सम्पत्ति के लिए)	कब्जे का प्रकार	सम्पत्तियों का विवरण
1.	उधारकर्ता: 1. श्री रमेश चंद्र पुत्र तौले राम वर्मा। निवासी ग्राम मऊ खालसा, पोस्ट बसुलिया, तहसील सदर, शाहजहाँपुर - 242001. जमानतकर्ता: राम चंद्र सिंह पुत्र विश्राम सिंह। निवासी ग्राम मऊ खालसा, पोस्ट बसुलिया, तहसील सदर, शाहजहाँपुर - 242001.	30.06.2025 30.10.2025 06.11.2025	04.11.2025	सांकेतिक	आवासीय संपत्ति का साम्प्रिक बंधक, ग्राम मऊ खालसा, परगना तहसील सदर, शाहजहाँपुर में स्थित, पंजीकृत दिनांक 09.10.2012 को विक्रय विलेख नं. बही नं.-1, जिल्द नं. 7769, पेज नं. 305 से 322, क्रमांक नं. 10848 के तहत उप-पंजीयक कार्यालय सदर में पंजीकृत है, मालिक श्री रमेश चंद्र पुत्र तौले राम, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 82.42 वर्ग मीटर।

स्थान: शाहजहाँपुर।

दिनांक: 16.11.2025

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर-सी 6 एवं 7, वसंत कुंज, नई दिल्ली -110070

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए 1 एवं 2, फेस-बी, नौयड-201305, उ.प्र., इण्डिया

CIN: L74899DL1994PLC061753, दूरभाष: +91 120 4581400

ईमेल : compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट: www.unipartsgroup.com



30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेशित समेकित एवं अनअंकेशित एकीकृत वित्तीय परिणामों का उद्घरण

(आईएनआर मिलियन में)

क्र० सं०	विवरण	एकीकृत					
		समाप्त तिमाही		समाप्त अर्धवार्षिक		समाप्त वार्षिक	
		30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025
		अनअंकेशित	अनअंकेशित	अनअंकेशित	अनअंकेशित	अनअंकेशित	अंकेशित
1	संचालन से कुल आय	2,138.89	1,674.81	1,806.51	3,813.70	3,383.47	6,450.30
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	527.19	196.78	416.33	723.97	593.35	947.09
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	527.19	196.78	416.33	723.97	593.35	947.09
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	473.44	146.26	385.30	619.70	516.32	829.25
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	444.40	130.59	350.24	574.99	514.65	810.51